

स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रपिर्ट

प्रलिम्स के लिये:

[वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#), स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रपिर्ट, देखभाल का अवमूल्यन, लगी वेतन अंतर, [सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज \(UHC\)](#)

मेन्स के लिये:

स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रपिर्ट, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास तथा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)


चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में लैंगिक अंतर को समाप्त करने की दशा में एक नई रपिर्ट जारी की, जिसका शीर्षक है- **Fair Share for Health and Care report** अर्थात् स्वास्थ्य और देखभाल के लिये उचित अंश रपिर्ट।

रपिर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में लैंगिक असमानताएँ:**
 - भुगतान प्राप्त वैश्विक स्वास्थ्य एवं देखभाल कार्यबल में 67% महिलाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वे सभी अवैतनिक देखभाल गतिविधियों का अनुमानित 76% प्रदर्शन करते हैं।
 - यह वैतनिक और अवैतनिक देखभाल कार्य दोनों में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है।
 - नमिन या मध्यम आय वाले देशों में महिलाओं की आय 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है यदि उनका वेतन और वैतनिक काम तक पहुँच पुरुषों के बराबर हो।
- **नरिण्य लेने पर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:**
 - नरिण्यक मामलों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। महिलाओं को नचिले दर्जे की भूमिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, इनमें अधिकांश नर्सों और मडिवाइफ शामिल हैं।
 - हालाँकि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है। चिकित्सा वशिष्टताओं में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है। रपिर्ट के अनुसार 35 देशों में डॉक्टरों में 25% से 60% महिलाएँ हैं, लेकिन नर्सिंग स्टाफ में 30% से 100% के बीच महिलाएँ हैं।
- **स्वास्थ्य प्रणालियों में कम नविश:**
 - स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में लगातार कम नविश के कारण अवैतनिक देखभाल कार्यों का एक दुष्चक्र शुरू हो गया है, जिससे वैतनिक श्रम बाजारों में महिलाओं की भागीदारी कम हो गई है, इससे आर्थिक सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता में बाधा उत्पन्न हुई है।

Fig. 26: The relationship between investment, performance, and gender equality in health and care systems



■ **देखभाल का अवमूल्यन:**

- मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली देखभाल को कम महत्त्व दिया जाता है, जिससे कम वेतन, खराब कामकाजी स्थिति, उत्पादकता में कमी और संबद्ध क्षेत्र पर नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है।

■ **लैंगिक वेतन अंतर के नहितार्थ:**

- **वेतन अंतराल** महिलाओं की अपने परिवार और समुदाय में निवेश करने की क्षमता को सीमित करता है।
- वशिव स्तर पर औसतन **महिलाओं द्वारा अर्जति आय के 90% का व्यय अपने परिवार की देखभाल के लिये** किया जाता है जबकि पुरुषों की आय का केवल 30-40% ही उक्त संबंध में व्यय किया जाता है।

■ **हिसा का उच्च स्तर:**

- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में महिलाओं को असमान रूप से लैंगिक हिसा के उच्च स्तर का सामना करना पड़ा।
- अनुमानों के अनुसार वशिव के सभी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर होने वाली हिसा में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में होने वाली हिसा का योगदान एक-चौथाई है।
 - स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सभी कर्मचारियों में से कम-से-कम आधे कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी न किसी क्षण पर हिसा का सामना करना पड़ा।

■ **भारतीय परिदृश्य:**

- भारत में महिलाएँ अपने कुल दैनिक कार्य समय का लगभग 73% (अर्थात् राष्ट्रीय दैनिक समय-उपयोग सर्वेक्षणों के माध्यम से दर्ज किये गए अवैतनिक और भुगतान किये गए कार्यों हेतु नयोजित किया गया संयुक्त औसत समय) अवैतनिक कार्यों पर खर्च करती हैं जबकि पुरुषों के दैनिक कार्य समय में अवैतनिक कार्य का अंश केवल 11% है।
- यूनाइटेड किंगडम में लगभग 4.5 मिलियन लोगों ने कोविड-19 के दौरान अवैतनिक कार्य किये, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 59% अर्थात् लगभग 3 मिलियन थी।


■ **स्वास्थ्य देखभाल का वैश्विक संकट:**

- रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य और देखभाल कार्यों में निवेश दशकों से अपर्याप्त रहा जिससे वशिव स्तर पर संबद्ध क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुआ।
- **यूनियर्सल हेल्थ कवरेज (UHC)** की दशा में प्रगति में बाधा के कारण अरबों लोग आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने से वंचित रहे, जिससे महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ बढ़ गया।

■ **प्रमुख अनुशासऱँ:**

- सभी प्रकार के स्वास्थ्य और देखभाल कार्यों, विशेष रूप से अत्यधिक नारीवादी व्यवसायों के लिये कार्य स्थितियों में सुधार करना।
- वेतनभोगी श्रम कार्यबल में महिलाओं को अधिक न्यायसंगत रूप से शामिल करना।
- स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में कार्य स्थिति में सुधार कर वेतन वृद्धि करना एवं समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में लैंगिक अंतराल का समाधान करते हुए गुणवत्तापूर्ण देखभाल कार्य का अनुसमर्थन करना और देखभाल कर्मियों के अधिकारों का संरक्षण कर उनका कल्याण सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय आँकड़ों में सभी स्वास्थ्य और देखभाल कार्यों का लेखा-जोखा, मापन एवं मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश करना।

Fig. 12: Proportion of women active in the health and care sector compared to all sectors by national income levels (2019)



Source: Data were obtained from ILO, please see Annex 1 for more details.

लैंगिक असमानता का समाधान करने के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- **आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीवित्व:**
 - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ:** यह बालिकाओं की सुरक्षा, अस्तित्व और शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।
 - **महिला शक्ति केंद्र:** इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।
 - **महिला पुलिस स्वयंसेवक:** इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों की भागीदारी की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं तथा संकट में महिलाओं की सहायता करती हैं।
 - **राष्ट्रीय महिला कोष:** यह एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को वभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिये रणनीतिक शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।
 - **सुकन्या समृद्धि योजना:** इस योजना के तहत लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।
 - **महिला उद्यमिता:** महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों/SHG/NGO का समर्थन करने हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म), उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।
 - **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:** इन्हें शैक्षिक रूप से पछिड़े ब्लॉकों (EBB) में खोला गया है।
- **राजनीतिक आरक्षण:** सरकार ने महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षण की हैं।
 - **नरिवाचिता महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण:** यह महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ-UNSAs

भाग I
FAO,
UNIDO
तथा ICAO

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

FAO

- **स्थापना-** 16 अक्टूबर 1945 (विश्व खाद्य दिवस)
- **मुख्यालय-** रोम, इटली
- **सदस्य-** 194 देश (भारत सहित) + यूरोपियन यूनियन
- **सहायक संस्थाएँ-** वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP), IFAD
- **FAO v/s WFP v/s IFAD:**
 - » **FAO एक सूचना आधारित संगठन है।** खाद्य सुरक्षा, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन आदि में तकनीकी विशेषज्ञता के लिये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करता है।
 - » **WFP एक मानवीय संगठन है।** संकट की स्थितियों में जीवन की रक्षा के लिये खाद्य सहायता और रसद संचालन प्रदान करता है।
 - » **IFAD एक वित्तीय संस्थान है;** पोषण स्तर में सुधार के लिये ग्रामीण विकास परियोजनाओं को धन देता है।

■ प्रमुख प्रकाशन:

- » विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि राज्य (SOFIA)।
- » 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्स'।
- » विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण राज्य (SOFI)।
- » खाद्य और कृषि राज्य (SOFA)।
- » स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कर्मेडिटी मार्केट्स (SOCO)।
- » विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक

■ भारत में FAO की विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ (GIAHS):

- » कुट्टनाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली, केरल
- » कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ओडिशा
- » पंपोर केसर हेरिटेज, कश्मीर

'संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन' (UNIDO)

- **स्थापना-** वर्ष 1966 ((1985 में UNSA में परिवर्तित)
- **मुख्यालय-** विएना, ऑस्ट्रिया
- **सदस्य देश-** 171 (भारत संस्थापकों में से एक है)
- **कार्य-** तकनीक-सहयोग, सलाहकार सेवाएँ और साझेदारी को बढ़ावा देना
- **महत्वपूर्ण घोषणाएँ-** लीमा घोषणा (2013), अबू धाबी घोषणा (2019)

UNIDO SDG 9 के तहत 6 उद्योग-संबंधित संकेतकों के लिये एक संरक्षक एजेंसी है

ICAO

- **स्थापना-** 1944 (शिकागो अभिसमय)
- **कार्य-** शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानक/प्रक्रियाएँ निर्धारित करना
- **मुख्यालय-** मॉंट्रियल, कनाडा
- **सदस्य-** 193 (भारत सहित)

ICAO एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियामक नहीं है; यह किसी देश के हवाई क्षेत्र को मनमाने ढंग से बंद/प्रतिबंधित नहीं कर सकता, मार्गों को बंद नहीं कर सकता या हवाई अड्डों/एयरलाइनों को दोषी नहीं ठहरा सकता



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न 1. नमिनलखिति में से कौन, वशिव के देशों के लयि सार्वभौम लैंगकि अंतराल सूचकांक का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017)

- वशिव आर्थकि मंच
- UN मानव अधकिार परषिद
- UN वीमेन
- वशिव स्वास्थय संगठन

उत्तर: (a)

प्रश्न. 2 'डॉक्टर्स वदिउट बॉर्डर्स (Médecins Sans Frontières)' जो प्रायः समाचारों में देखा जाता है, है: (2016)

- वशिव स्वास्थय संगठन का एक प्रभाग
- एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजति एक अंतःसरकारी एजेंसी
- संयुक्त राष्ट्र की एक वशिषिट एजेंसी

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लयि नरिंतर चुनौतियाँ क्या हैं? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fair-share-for-health-and-care-report>

